



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2473]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 2012/पौष 1, 1934

No. 2473]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 2012/PAUSA 1, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 2981(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2264(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा ओड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 18.900 कि.मी. से 88.000 कि.मी. (सम्बलपुर-बरगढ़-ओड़ीसा/छत्तीसगढ़ सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 10 अक्टूबर, 2012 को “दि सम्बाद” और “धारित्रि” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

ओड़िसा राज्य में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 6 के 18.900 कि.मी. से 88.00 कि.मी. तक (सम्बलपुर - बरगड - ओड़िसा - छत्तीसगढ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संस्था	जिले का नाम	तालुक / तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/ प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बरगड	1. अटटाबीरा	(1) गर्तिआपाखि	110/1258	नीजी	घरदारी	0.010	मीना बांक, पत्नी श्याम सुन्दर बांक, गांव दुलमपुर
				110/1260	नीजी	घरदारी	0.020	मीना बांक, पत्नी श्याम सुन्दर बांक, गांव दुलमपुर
				110/1259	नीजी	घरदारी	0.020	सुलचना अग्रवाल, पत्नी राम कृष्ण अग्रवाल, गांव गोडमगा
				114/1253	नीजी	कृषी	0.010	पुटा मेकट राज, सुपुत्र पुटा मीरामीर राजु, गांव नीजगांव
				114/1254	नीजी	कृषी	0.030	उम प्रकाश अग्रवाल, सुपुत्र देवीप्रसाद अग्रवाल, गांव नीजगांव
			(2) सरण्डा	256	नीजी	कृषी	0.020	अगरमती घोस, पत्नी ग्यानेन्द्र घोस, गांव अतावीरा
				256./1145	नीजी	कृषी	0.030	मासीना रमा देवी, पत्नी मासीना मेकटेश्वर राज, मासीना मेकटेश्वर सुपुत्र मासीना रामा राज, गांव नीजगांव
				517	नीजी	कृषी	0.900	सुसान्त कुमार मिश्र, सुपुत्र मुरारी मिश्र, गांव नीजगांव
				253	नीजी	कृषी	0.120	संकर मेहेर, सुपुत्र लक्ष्मण मेहेर, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(3) अट्टाबिरा					
				2826	नीजी	कृषी	0.010	वैष्णव प्रधान, धर्मराज, सुपुत्र जीत प्रधान, राशेश्वरी, सुपुत्री सुरेश्वरी प्रधान, गांव नीजगांव
				2830	नीजी	घर	0.010	पुरन्दर प्रधान, सुपुत्र दीरजु प्रधान, गांव गोडमणा
				2842	नीजी	कृषी	0.010	जयपाल नाथक, उपेन्द्र नाथक, गांव बादेबीरा
				2844	नीजी	घर	0.010	जयपाल नाथक, उपेन्द्र नाथक, गांव बादेबीरा
				2843	नीजी	घर	0.010	रामचन्द्र भोइ, सुपुत्र बाघ भोइ, गांव नीजगांव
				3112	नीजी	कृषी	0.010	बुधुराम भोइ, सुपुत्र हसीकेश भोइ, गांव नीजगांव
				3113	नीजी	राड	0.010	बुधुराम भोइ, सुपुत्र हसीकेश भोइ, गांव नीजगांव
				3128	नीजी	बगाथत- २	0.050	गोपाल चन्द्र बांक, साबरमाल बांक एण्ड अदर्श, गांव नीजगांव
				3166	नीजी	घर	0.010	लक्ष्मीनारायण, सुपुत्र गंगा साहेब व्यास, गांव नीजगांव
				3168	नीजी	घर	0.050	बुधिष्टीर बाग, गोबीन्द, बीरंची, भोलानाथ, दासस्थी, सुपुत्र गंगा बाग, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3167	नीजी	घरबारी	0.010	राजेन्द्र कुमार ब्रह्मट, दीपक कुमार, सुपुत्र रणछोड ब्रह्मट, बीमल, पत्नी रणछोड भीमभोट, गांव नीजगांव
				4965	नीजी	कृषी	0.010	पंचानन, सनातन, जनार्दन, सुपुत्र नकुल प्रधान, गांव नीजगांव
				2845	नीजी	कृषी	0.010	जयपाल नाथक, उपेन्द्र नाथक, गांव नीजगांव
				3169	सरकारी	उन्नत योजना योग्य	0.100	रखीत
			(4) लदरपाली	244	नीजी	कृषी	0.020	सुकुबीन्दर सीं, सुपुत्र हजार सीं, गांव नीजगांव
			(5) रेंगालिपालि	676	नीजी	पत्तीत	0.020	कुंजलता मीतल, पत्नी बीजय कुमार मीतल, गांव अतावीरा
				1309	नीजी	कृषी	0.050	चमारु सीं, सुपुत्र नानको सीं, गांव लादरपाली
				671	नीजी	घरबारी	0.040	धबीर प्रधान, महेन्द्र प्रधान सुपुत्र सपन प्रधान, गांव नीजगांव
				672	नीजी	घरबारी	0.020	धबीर प्रधान, महेन्द्र प्रधान सुपुत्र सपन प्रधान, गांव नीजगांव
				670	नीजी	घरबारी	0.010	धबीर प्रधान, महेन्द्र प्रधान सुपुत्र सपन प्रधान, गांव नीजगांव
				682	नीजी	कृषी	0.020	प्रेमराज सीं, सुपुत्र भगवान सीं, गांव लादेरपाली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				679	नीजी	कृषी	0.020	बंसीधर नायक, सुपुत्र केसव नायक, गांव नीजगांव
				1280	नीजी	कृषी	0.010	बनीता गडतीआ, पत्नी सचीदानन्द गडतीआ, गांव लादेरपाली
				680	नीजी	कृषी	0.050	सत्यनारायण अग्रवाल, सुपुत्र गोपीराम अग्रवाल, गांव अतावीरा
				795	नीजी	कृषी	0.030	अतावीरा समवाय समीती
				646	नीजी	घरवारी	0.100	अतावीरा सुगर प्रोसेसी एण्ड माकेण्टिंग एमएफ् सेक्रेटरी
				675	नीजी	पत्तीत	0.010	गण्डा प्रधान, सुपुत्र मन्निमानु, पनीक, सुपुत्र अर्जुन, राजकुमार, सुपुत्र नकुल, उदीआ, पत्नी नकुल एण्ड अदर
		(6) जन्हापदा		1772	नीजी	बरछा	0.150	बेटीस्वाई प्रधान सुपुत्र जगबन्धु, ठीबीरी साहु, सुपुत्र लम्बोदर साहु, गांव नीजगांव
				1811/6333	नीजी	कृषी	0.060	रवीन्द्र साहु, सुपुत्र कल्प साहु, गांव देवबाहाल
				1776	नीजी	कृषी	0.020	हाडु बर्गे, सुपुत्र भद्र भर्गा, गांव देवबाहाल
				1810	नीजी	घर	0.010	फुल बारीक, पत्नी भज बारीक, गांव नीजगांव
				1876	नीजी	कृषी	0.300	शशीभुषण बती, नीताइ, सुपुत्र गोबिन्द बती, सान्नीखता, पत्नी गौर बादी, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. बरगड	(1) प्रधानपालि	1355	नीजी	कृषी	0.050	बन्दन राय, सुपुत्र रम्बिलास राय, गांव - नीजगांव
				1359	नीजी	कृषी	0.020	राजपडी राय, सुपुत्र जदु राय, गांव - बरगड, या.नं.३
			(2) ब्रह्मचारि	92	नीजी	कृषी	0.360	डोलामणी दोरा, सुपुत्र बिद्याधर दोरा, गांव - नीजगांव
				684	नीजी	कृषी	0.060	डोलामणी दोरा, सुपुत्र बिद्याधर दोरा, गांव - नीजगांव
				380	नीजी	कृषी	0.040	सुशील कुमार दास, सुपुत्र बनबीहारी दास, गांव - नीजगांव
			(3) बरगड	579	नीजी	कृषी	0.060	केसब चन्द्र दास, सुपुत्र लक्ष्मणी दास, गांव - नीजगांव
				86	नीजी	कृषी	0.020	गंगाधर साहु, सुपुत्र, बुध्दिचिर साहु, गांव - नीजगांव
				87	नीजी	कृषी	0.090	गोपाल साहु, सुपुत्र गण्डासाहु, गांव - नीजगांव
				107	नीजी	कृषी	0.030	चतुरभुज प्रधान, मीनकेतन, टंकधर, सुपुत्र परसु प्रधान, गांव - नीजगांव, सुकुरु प्रधान, सुपुत्र भालु प्रधान, गांव - नीजगांव
				540	नीजी	कृषी	0.050	चेतन बगर्ती, सुपुत्र नारायण बगर्ती, गांव - नीजगांव
				474	नीजी	कृषी	0.030	बुध्दिचिर मंगुआल, सुपुत्र, बाबुदेव मंगुआल, गांव - नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				545	नीजी	कृषी	0.050	भागवतीआ साहू, सुपुत्र, बालगुण्ड साहू, सहदेव, सुपुत्र करुणाकर, गांव - नीजगांव
				1492	नीजी	कृषी	0.030	कीरानी बगर्ती, सुपुत्र सुखा बगर्ती, गांव ब्रह्माचारी
				472	नीजी	कृषी	0.080	मोहन प्रधान, छोटेलाह, योगेन्द्र, सुपुत्र टंकधर, बेणुधर, गौरांग, बुद्धदेव, सुपुत्र नवीन प्रधान, गांव - नीजगांव
				542	नीजी	कृषी	0.050	हारावती गडतीआ, पत्नी नरहरी गडतीआ, गांव - नीजगांव
			(4) हलदिपालि	281	नीजी	कृषी	0.050	रथिन्द्र कुमार अग्रवाल, सुपुत्र घनश्याम अग्रवाल, गांव - नीजगांव
			(5) साउण्टपुर	344	नीजी	कृषी	0.020	सुमुद चन्द्र दास, सुपुत्र देवार्चन दास, गांव - नीजगांव
				344/477	नीजी	कृषी	0.020	बनमाली बुडेक, सुपुत्र बंसीधर बुडेक, गांव - नीजगांव
			(6) गोविन्दपुर	2406	नीजी	कृषी	0.130	जानकी बाई, पत्नी मंगल चांद अग्रवाल, गांव - बरगड

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2407	नीजी	कृषी	0.140	<p>नुरा साहु, पत्नी उकुला साहु, साधु साहु, बैरागी साहु, सुपुत्र नन्द, बंसी सुपुत्र बीसी, राजेन्द्र, सुपुत्र धनु, झसकेतन, सुपुत्र अच्युता, एका, गोकुल, गंगाधर, सुपुत्र हज्जु, दुयोधन, सुपुत्र सदानन्द, प्रसन्न सुपुत्र भवन, गांव पथर्ला</p>
				2420	नीजी	कृषी	0.170	<p>नुरा साहु, पत्नी उकुला साहु, साधु साहु, बैरागी साहु, सुपुत्र नन्द, बंसी सुपुत्र बीसी, राजेन्द्र, सुपुत्र धनु, झसकेतन, सुपुत्र अच्युता, एका, गोकुल, गंगाधर, सुपुत्र हज्जु, दुयोधन, सुपुत्र सदानन्द, प्रसन्न सुपुत्र भवन, गांव पथर्ला</p>
				2421	नीजी	कृषी	0.160	<p>नुरा साहु, पत्नी उकुला साहु, साधु साहु, बैरागी साहु, सुपुत्र नन्द, बंसी सुपुत्र बीसी, राजेन्द्र, सुपुत्र धनु, झसकेतन, सुपुत्र अच्युता, एका, गोकुल, गंगाधर, सुपुत्र हज्जु, दुयोधन, सुपुत्र सदानन्द, प्रसन्न सुपुत्र भवन, गांव पथर्ला</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2425	नीजी	कृषी	0.020	नुरा साहू, पत्नी उकुला साहू, साधु साहू, बैरागी साहू, सुपुत्र नन्द, बंसी सुपुत्र बीसी, राजेन्द्र, सुपुत्र धनु, इसकेतन, सुपुत्र अच्युता, एका, गोकुल, गंगाधर, सुपुत्र हजरात, दुषोधन, सुपुत्र सदानन्द, प्रसाद सुपुत्र भवन, गांव पथर्ला
				2426	नीजी	कृषी	0.010	नुरा साहू, पत्नी उकुला साहू, साधु साहू, बैरागी साहू, सुपुत्र नन्द, बंसी सुपुत्र बीसी, राजेन्द्र, सुपुत्र धनु, इसकेतन, सुपुत्र अच्युता, एका, गोकुल, गंगाधर, सुपुत्र हजरात, दुषोधन, सुपुत्र सदानन्द, प्रसाद सुपुत्र भवन, गांव पथर्ला
				2427	नीजी	कृषी	0.040	नुरा साहू, पत्नी उकुला साहू, साधु साहू, बैरागी साहू, सुपुत्र नन्द, बंसी सुपुत्र बीसी, राजेन्द्र, सुपुत्र धनु, इसकेतन, सुपुत्र अच्युता, एका, गोकुल, गंगाधर, सुपुत्र हजरात, दुषोधन, सुपुत्र सदानन्द, प्रसाद सुपुत्र भवन, गांव पथर्ला
				2781	नीजी	कृषी	0.200	महादेव प्रधान, सुपुत्र मोहन प्रधान, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2428	नीजी	कृषी	0.020	सुमती भोइ एंड अदर्स, गांव नीजगांव
				2429	नीजी	कृषी	0.030	सुमती भोइ एंड अदर्स, गांव नीजगांव
				2780	नीजी	कृषी	0.050	कीरन देवी शर्मा, पत्नी जगदीश शर्मा, गांव नीजगांव
			(7) चकरकेन्द	2850./5440	नीजी	पतित	0.210	क्रीपाल सी सुपुत्र हरवंस सी, गांव अंबापाली
				2851./5441	नीजी	पतित	0.050	क्रीपाल सी सुपुत्र हरवंस सी, गांव अंबापाली
		3.सोहेला	(1) बीशीपालि	1276	नीजी	कृषी	0.160	संजय प्रकाश अग्रवाल, सुपुत्र जयप्रकाश अग्रवाल, गांव बरगड वाड.नं. १६
			(2)नुआगांव	1381/1737	नीजी	कृषी	0.100	केसब स्वमारी, प्रमावती, भगवती, सुपुत्र कृपा, चतुरा, पत्नी कृपा, छेलीआ, सुपुत्र नारायण, सहदेव, पुर्ण, सुपुत्र पीतांबर, हाडु, सुबल, सुपुत्र चित्र, साहेबाणी, पत्नी चन्द्र, सौमीत्री पिता उदे, घासी, पिता कैबल्य, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1381	नीजी	कृषी	0.500	केसब स्वमारी, प्रमाबती, भगवती, सुपुत्र कृपा, चतुरा, पत्नी कृपा, छेलीआ, सुपुत्र नारायण, सहदेव, पुर्ण, सुपुत्र पीतांबर, हाडु, सुबल, सुपुत्र चित्र, साहेबाणी, पत्नी चन्द, सौमीत्री पिता उदे, घासी, पिता कैबल्य, गांव नीजगांव
				218/ 1829	नीजी	कृषी	0.030	कृष्णचन्द्र दास, सुपुत्र हसीकेश दास, गांव गुडेशीरा
				1382	सरकारी	रास्ता	0.100	सर्वसाधारण
		(3)गर्मणा		852/ 2627	नीजी	घरबारी	0.010	अत्रेय पण्डा, सुपुत्र देवराज पण्डा, गांव नीजगांव
				850/2629	नीजी	घरबारी	0.010	राधेश्याम पण्डा, सुपुत्र रंजीत पण्डा, गांव नीजगांव
				850/2630	नीजी	घरबारी	0.040	कुंज बीहारी साहु, रतना साहु, गांव नीजगांव
				850/2631	नीजी	घरबारी	0.030	धर्मपत साहु, सुपुत्र कुंज बीहारी साहु, गांव नीजगांव
				850/2633	नीजी	घरबारी	0.010	गणेश प्रधान, सुपुत्र गोबर्धन प्रधान, गांव नीजगांव
				850/2634	नीजी	घरबारी	0.010	भरत प्रधान, सुपुत्र गोबर्धन प्रधान, गांव नीजगांव
				850/2635	नीजी	घरबारी	0.010	हेमचन्द्र प्रधान, सुपुत्र गोबर्धन प्रधान, गांव नीजगांव
				850/2636	नीजी	घरबारी	0.010	जादवी प्रधान, सुपुत्र गोबर्धन प्रधान, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				850/2637	नीजी	घरबारी	0.010	जन्मजय साहु, सुपुत्र हारा साहु, गांव नीजगांव
				850/2638	नीजी	घरबारी	0.010	सोमनाथ साहु, सुपुत्र हारा साहु, गांव नीजगांव
				852/ 2610	नीजी	घरबारी	0.015	गोबर्द्धन बारीक, सुपुत्र नृप बारीक, गांव नीजगांव
				852/2611	नीजी	घरबारी	0.020	लाल बीहारी महापात्र, सुपुत्र लोकनाथ महापात्र, गांव नीजगांव
				852/2612	नीजी	घरबारी	0.010	मनबोध साहु, सुपुत्र हाडु साहु, गांव नीजगांव
				852/2613	नीजी	घरबारी	0.010	दीरजु बारीक सुपुत्र टंक बारीक, गांव नीजगांव
				852/2614	नीजी	घरबारी	0.010	टीकेश्वर साहु, सुपुत्र धर्मु साहु, गांव नीजगांव
				852/2615	नीजी	घरबारी	0.020	काहुचरण भोइ, सुपुत्र सुरेश्वरी भोइ, गांव नीजगांव
				852/2616	नीजी	घरबारी	0.010	बेनुधर भोइ, सुपुत्र सुरेश्वरी भोइ, गांव
				852/2617	नीजी	घरबारी	0.010	गोपीनाथ भोइ, सुपुत्र सुरेश्वरी भोइ, गांव
				852/2618	नीजी	घरबारी	0.005	दनार बारीक, सुपुत्र कंगालु गांव नीजगांव
				852/2619	नीजी	घरबारी	0.010	नीरंजन बारीक, सुपुत्र कंगालु गांव नीजगांव
				852/2620	नीजी	घरबारी	0.020	मुरली बारीक, सुपुत्र कंगालु गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				852/2621	नीजी	घरबारी	0.030	नाचाधर पसावत, सुपुत्र राधाकान्त पसावत, गांव नीजगांव
				852/2651	नीजी	घरबारी	0.040	इकेश्वर साहु, सुपुत्र संकर साहु, गांव नीजगांव
				852/2624	नीजी	घरबारी	0.030	मीकरी चरण साहु, सुपुत्र संकर साहु, गांव नीजगांव
				852/2625	नीजी	घरबारी	0.010	हराधन नाचक, सुपुत्र कन्हैई नाचक, गांव नीजगांव
				852/2626	नीजी	घरबारी	0.020	तपोधन महापात्र, सुपुत्र सहदेव महापात्र, गांव नीजगांव
				852/2609	नीजी	घरबारी	0.030	अमीननु खगरी, सुपुत्र खडीआ खगरी, गांव नीजगांव
				847/2640	नीजी	घरबारी	0.010	सत्यवान साहु, सुपुत्र दरीद साहु, गांव नीजगांव
				847/2641	नीजी	घरबारी	0.010	नीनाई साहु, सुपुत्र बंसीधर साहु, गांव नीजगांव
				847/2642	नीजी	घरबारी	0.030	सुनामुख साहु, सुपुत्र दीरगु साहु, गांव नीजगांव
				847/2643	नीजी	घरबारी	0.010	प्रमोद साहु, सुपुत्र अरखीत साहु, गांव नीजगांव
				847/2644	नीजी	घरबारी	0.040	क्रीशोर प्रधान, सुपुत्र पुरुषोत्तम प्रधान, गांव नीजगांव
				847/2645	नीजी	घरबारी	0.020	सलीत कुमार साहु, सुपुत्र बाईधर साहु, गांव नीजगांव
				847/2646	नीजी	घरबारी	0.010	भास्त साहु, सुपुत्र लाल साहेब साहु, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				847/2647	नीजी	घरबारी	0.020	बीनोद साहु, सुपुत्र रामजी साहु, गांव नीजगांव
				847/2648	नीजी	घरबारी	0.020	सरोज साहु, सुपुत्र रामजी साहु, गांव नीजगांव
				847/2650	नीजी	घरबारी	0.010	सुभास पण्डा, सुपुत्र टंकधर पण्डा, गांव नीजगांव
				847/2623	नीजी	घरबारी	0.030	कीशोर, सुरेश, सुपुत्र पुरुषोत्तम पधान, गांव नीजगांव
				314/2248	नीजी	घरबारी	0.080	लबंगलता बनीआ, पत्नी एकादशी बनीआ, गांव नीजगांव
				314/2403	नीजी	घरबारी	0.100	नबीन कीशोर आचार्य, सुपुत्र बंसीधर आचार्य, गांव नीजगांव
				852/2628	नीजी	घरबारी	0.020	मुकेश आचार्य, सुपुत्र रामप्रसाद आचार्य गांव नीजगांव
				650/2632	नीजी	घरबारी	0.010	नन्दी मीश्र, सुपुत्र भीकरी चरण मीश्र, गांव नीजगांव
				847/2649	नीजी	घरबारी	0.020	रबी पण्डा, सुपुत्र टंकधर पण्डा गांव नीजगांव
				847/2622	नीजी	घरबारी	0.030	अरक्षीत नायक, सुपुत्र शेष नायक, गांव नीजगांव
			(4) हलदीपालि	149/763	नीजी	कृषी	0.010	लक्ष्मीबती भोड़, पत्नी नीत्यानन्द भोड़ गांव सोहेला
				163/876	नीजी	कृषी	0.040	भरत कुमार भंज, सुपुत्र टंकधर भंज, गांव सोहेला
				244/945	नीजी	कृषी	0.120	काशीनाथ पण्डा, सुपुत्र प्रसन्नजीत पण्डा, गांव गर्भणा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5)सोहेला	1829	नीजी	कृषी	0.130	रंभाबती अग्रवाल, सुपुत्र हरीनारायण अग्रवाल, गांव नीजगांव
				1830	नीजी	कृषी	0.100	रंभाबती अग्रवाल, सुपुत्र हरीनारायण अग्रवाल, गांव नीजगांव
				1099	नीजी	कृषी	0.570	अनीरुध गडतीआ, अमूल्य, सुपुत्र कृष्ण चन्द्र गडतीआ, गांव नीजगांव
				1828	नीजी	कृषी	0.020	टोल ठेला, सुपुत्र घुट्ट, दुआरी, सुपुत्र हरी, गांव नीजगांव
				1869	नीजी	कृषी	0.070	रघुनन्दन तीवारी, सुपुत्र प्रशन्न तीवारी, गांव नीजगांव
				1867/2359	नीजी	कृषी	0.300	लक्ष्मीनारायण भोइ, सुपुत्र गौरी शंकर भोइ, गांव नीजगांव
				1688/3801	नीजी	घरबारी	0.020	मनोज कुमार अग्रवाल, सुपुत्र नानकराम अग्रवाल, गांव नीजगांव
				1688/3828	नीजी	घरबारी	0.007	नासीर हुसेन, सुपुत्र अबदुल कादर, गांव नीजगांव
				1688/3832	नीजी	घरबारी	0.007	आबु बकर, सुपुत्र अबदुल अजीक, गांव नीजगांव
				1688/3827	नीजी	घरबारी	0.007	मं. शाबीर, सुपुत्र अबदुल अजीक, गांव नीजगांव
				1688/3831	नीजी	घरबारी	0.010	हावा बाइ, पत्नी अबदुल गफर, मं. फारुक, सुपुत्र अबदुल जाफर, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1688/3829	नीजी	घरबारी	0.007	गुलाम जीलानी, सुपुत्र हरन जीलानी, गांव नीजगांव
				1688/3830	नीजी	घरबारी	0.010	कार्तिक साह, सुपुत्र सखी साह, गांव नीजगांव
				1688	नीजी	घरबारी	0.007	मं. शाजीत, सुपुत्र अबदुल रहीम, गांव नीजगांव
				427	नीजी	कृषी	0.120	प्रफुल कुमार मिश्र, सुपुत्र हरिहर मिश्र, गांव नीजगांव
				1867/2225	नीजी	घरबारी	0.040	भवानी संकर साहानी, सुपुत्र गौरीसंकर साहानी, गांव नीजगांव
				587	नीजी	कृषी	0.060	दुयोधन गडतीआ, सुपुत्र मथुरा, गोबर्दन, सुपुत्र बत्ती, साबीत्री, सुपुत्र दयानीधी, रंग, प्रेम, संकर, सुपुत्र धोबा, रुकमणी, पत्नी धोबा, प्रहल्लाद, बासुदेव, आसुतोष, सुपुत्र सनातन भागी, पत्नी सनातन, रंगट्ट, कुलमणी, सुपुत्र नरहरी, नृप, सुपुत्र टीकेश्वर, जल पत्नी टीकेश्वर गडतीआ, गांव नीजगांव
				52	नीजी	कृषी	0.250	डींगर साह, सुपुत्र उग्रेशन साह, गांव डुमेरपाली
				1880	सरकारी	रास्ता	0.020	पी.डब्लु.डी
				1808	सरकारी	नयनजोरी	0.070	पी.डब्लु.डी
				1809	सरकारी	नयनजोरी	0.060	पी.डब्लु.डी



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(6)केन्दुमुण्डि - डम्बरपालि	232	नीजी	कृषी	0.250	लता प्रधान, पत्नी सांतोष प्रधान, गांव नीजगांव
				352	नीजी	कृषी	0.250	लता प्रधान, पत्नी सांतोष प्रधान, गांव नीजगांव
				378	नीजी	कृषी	0.240	बीलास प्रधान, पत्नी पीछालु प्रधान, नरोत्तम, सुपुत्र पीछाली, गांव नीजगांव
				473	नीजी	कृषी	0.030	आरत प्रधान, अक्षय प्रधान, सुपुत्र परमेश्वर, चंचला, पत्नी जीवरधन प्रधान, गांव नीजगांव
				476	नीजी	कृषी	0.050	राहास बीहारी महानन्द, कुंज, सुपुत्र गजेन्द्र महानन्द, गांव नीजगांव
				487	नीजी	आडी	0.040	सुबास प्रधान, सुपुत्र श्याम, सुन्दर, सुपुत्र जानकी, पत्नी श्याम, दुस्वा, सुपुत्र दुयोधन, नुरा पत्नी भास्कर प्रधान, सुरुवाली, साइबाणी, सरोजीनी सुपुत्री, भास्कर गांव नीजगांव
				482	नीजी	मुण्डा	0.040	सुबास प्रधान, सुपुत्र श्याम, सुन्दर, सुपुत्र जानकी, पत्नी श्याम, दुस्वा, सुपुत्र दुयोधन, नुरा पत्नी भास्कर प्रधान, सुरुवाली, साइबाणी, सरोजीनी सुपुत्री, भास्कर गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				349	नीजी	कृषी	0.320	बती प्रधान, पत्नी, सानन्द प्रधान, गांव नीजगांव
				328/925	नीजी	घरबारी	0.010	सुमेधा दीप, पत्नी, चेरा दीप, गांव नीजगांव
				342/926	नीजी	घरबारी	0.010	सुमेधा दीप, पत्नी, चेरा दीप, गांव नीजगांव
				326/927	नीजी	घरबारी	0.010	मीत्र सुना, पत्नी सुरेन्द्र सुना, गांव नीजगांव
				342/928	नीजी	घरबारी	0.010	मीत्र सुना, पत्नी सुरेन्द्र सुना, गांव नीजगांव
				342	नीजी	घरबारी	0.020	महीपाल दीप, सुपुत्र भागवतीआ दीप, गांव नीजगांव
				726	नीजी	कृषी	0.180	रामकृष्ण सुना, रामप्रसाद, राजेन्द्र, सुपुत्र चतुर्भुज सुना, गांव नीजगांव
				480	सरकारी	शाम्य जंगल	0.320	रस्वीत
				470/781	सरकारी	शाम्य जंगल	0.050	रस्वीत
			(7)अर्जुणडा	1723	सरकारी	शाम्य जंगल	0.050	रस्वीत
				1797	नीजी	कृषी	1.530	कुलमणी प्रधान, सुपुत्र धबलेश्वर, गोकुल, सचीदानन्द, पीता नीलमणी, पार्वती, पत्नी नीलमणी प्रधान, गांव नीजगांव
			(8)पस्तामुण्डा	302/1387	नीजी	घरबारी	0.020	प्रकाश कर, पत्नी गुलजार सीं, सुपुत्र करनेल सीं, गांव पंडकीपाली
				303	सरकारी	रास्ता	0.100	पी.डब्लु.डी
				304	सरकारी	बस्तीयोग्य	0.100	रस्वीत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(9)पण्डितियालि					
				1688/3785	नीजी	घरबारी	0.020	रामानन्द मीश्र, सुपुत्र बीद्याधर मीश्र, गांव नीजगांव
				1690/3786	नीजी	घरबारी	0.010	रामानन्द मीश्र, सुपुत्र बीद्याधर मीश्र, गांव नीजगांव
				1614/3787	नीजी	घरबारी	0.020	बीद्याधर सतपथी, सुपुत्र गण्डाई सतपथी, गांव नीजगांव
				1616/3788	नीजी	घरबारी	0.020	बीद्याधर सतपथी, सुपुत्र गण्डाई सतपथी, गांव नीजगांव
				1690	नीजी	घरबारी	0.030	बीद्याधर सतपथी, सुपुत्र गण्डाई सतपथी, गांव नीजगांव
				1688/3789	नीजी	घरबारी	0.010	राजकुमार भोइ, सुपुत्र टीकेशीन्धु भोइ, गांव नीजगांव
				1612/3790	नीजी	घरबारी	0.030	रघुनाथ भंडीसाल, सुपुत्र नीलांबर भंडीसाल, गांव नीजगांव
				1613/3791	नीजी	घरबारी	0.010	रघुनाथ भंडीसाल, सुपुत्र नीलांबर भंडीसाल, गांव नीजगांव
				1614/3792	नीजी	घरबारी	0.040	गणेश प्रसाद सेठ, सुपुत्र फुलचान्द साठ, गांव नीजगांव
				1689/3793	नीजी	घरबारी	0.030	घनश्याम साहु, सुपुत्र धबलेश्वर साहु, गांव नीजगांव
				1613/3794	नीजी	घरबारी	0.020	कृष्णचन्द्र भोइ, सुपुत्र सौकीलाल भोइ, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1689	नीजी	घरबारी	0.020	रंक्रमणी साहु, सुपुत्र धबलेश्वर साहु, गांव नीजगांव
				1690/2844	नीजी	घरबारी	0.010	रंक्रमणी साहु, सुपुत्र धबलेश्वर साहु, गांव नीजगांव
				1616/3795	नीजी	घरबारी	0.030	बीश्वजित शतपथी, सुपुत्र बीद्याधर शतपथी, गांव नीजगांव
				1688/3796	नीजी	घरबारी	0.030	प्रतीभा मीश्र, सुपुत्र सत्यानन्द मिश्र, गांव नीजगांव
				1616/3797	नीजी	घरबारी	0.030	देवानन्द शतपथी, विद्याधर सतपथी, गांव नीजगांव
				1614/3798	नीजी	घरबारी	0.030	प्रतीप कुमार सेठ, सुपुत्र गणेश सेठ, गांव नीजगांव
				1688/3799	नीजी	घरबारी	0.030	कंमुपानी भोड़, पीता, तेजसीन्धु भोड़, गांव नीजगांव
				1688/3800	नीजी	घरबारी	0.030	चुडामणी भोड़, सुपुत्र तेजसीन्धु भोड़, गांव नीजगांव
				1614/3801	नीजी	घरबारी	0.030	सीता सेठ, पत्नी फुलचान्द सेठ, गांव नीजगांव
				1612/3802	नीजी	घरबारी	0.030	मालती भईसाह, पत्नी नीलावर, गांव नीजगांव
				415/2245	नीजी	कृषी	0.030	गोपीनाथ भोड़, सुपुत्र सुदरसन भोड़, गांव नीजगांव
				1414	नीजी	कृषी	0.110	माधव वीश्वाल, टंकधर, बंसीधर, सुपुत्र श्याम सुन्दर, त्रीलोचन, इश्वर, सुपुत्र दशरथ बीश्वाल, गांव नीजगांव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1619	नीजी	घरबारी	0.040	दयानीधी साहु, सान्तीलता साहु, सरस्वती सुपुत्र सुरेश्वर, सुपारी, पत्नी सुरेश्वर, अर्न्तयामी, सुपुत्र, हृषीकेश, चीतामणी, सुपुत्र राम साहु, गांव नीजगांव
				1728/2172	सरकारी	कटा	0.540	रस्वीत
				2649	सरकारी	रास्ता	0.090	सर्वसाधारण

[ फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11012/73/2005/भाग/एल.ए. ]

माया प्रकाश. उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2012

**S.O. 2981(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2264 (E), dated the 20th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under Sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act.), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 06 on the stretch of land from Km 18.900 to Km 88.000 (Sambalpur-Bargarh-Odisha/Chhattisgarh Section) in District Bargarh in the State of Odisha;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Sambad" and "The Dharitri" both dated the 10th October, 2012, under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3D of the said Act, The Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief Description of Land to be required, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 18.900 to Km 88.000(Sambalpur- Bargarh- Odisha/ Chattishgarh Section) on the National Highway No-06 in the state of Odisha

Serial number	Name Of district	Name of The taluka/ tahasil	Name Of The village	Survey/ Plot number	Type Of land	Nature Of land	Area (in Acre)	Name of the land Owner/Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BARGARH	1.ATTABIRA	(1)GARTIAPALI	110/1258	Private	Gharabari	0.010	Mina Banka , W/o:- Shyam Sunder Banka , R/o:- Dulampur
				110/1260	Private	Gharabari	0.020	Mina Banka , W/o:- Shyam Sunder Banka , R/o:- Dulampur
				110/1259	Private	Gharabari	0.020	Sulachan Agrawal , W/o:- Ram Krushna Agrawal , R/o:- Godbhaga
				114/1253	Private	Agriculture	0.010	Putra Venket Rao , S/o :- Put Viravir Raju , R/o:- Nizigaon
				114/1254	Private	Agriculture	0.030	Om Prakas Agrawal , S/o :- Debi Prasad Agrawal Vill- Nizigaon
		(2)SARANDA		256	Private	Agriculture	0.020	Agarmati Gosh , W/o:- Gyanendra Gosh , R/o:- Attabira
				256 /1145	Private	Agriculture	0.030	Masina Ramdevi , W/o:- Masin Venkateswer Rao, masina Vvenkateswer , S/o :- - Masin Rama Rao , , R/o:- Chakuli
				517	Private	Agriculture	0.900	Sushanta Kumar Mishra , , S/o :- Murari Mishra , , R/o:- Nizigaon
		(3)ATTABIRA		253	Private	Agriculture	0.120	Sankar Meher , , S/o :- Laxman Meher , R/o:- Nizigaon
				2826	Private	Agriculture	0.010	Bisnaba Pradhan , Dharmaraj , S/o :- Jita Pradhan , Raseswari , S/o :- Sureswri Pradhan R/o:- Nizigaon

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2830	Private	Ghara	0.010	Purandera Pradhan , S/o :- Dirju Pradhan , R/o:- Godbhaga
				2842	Private	Agriculture	0.010	Jaypal Naik , S/o :- Upendra Naik , R/o:- Babebira
				2844	Private	Ghara	0.010	Jaypal Naik , S/o :- Upendra Naik , R/o:- Babebira
				2843	Private	Ghara	0.010	Ramachandra Bhoi , S/o :- Bagha Bhoi , R/o:- Nizigaon
				3112	Private	Agriculture	0.010	Budhuram Bhoi , S/o :- Hrusikesh Bhoi , R/o:- Nizigaon
				3113	Private	Road	0.010	Budhuram Bhoi , S/o :- Hrusikesh Bhoi , R/o:- Nizigaon
				3128	Private	Bagayat-II	0.050	Gopal Chandra Banka , Sabarmal Banka and Others , R/o:-Nizigaon
				3166	Private	Ghara	0.010	Laxminaryan Byasa , S/o :- Ganga Saheba Byasa , R/o:- Nizigaon
				3168	Private	Ghara	0.050	Judhistr bag , Gobinda , Bholanath , Dasratha , S/o :- Ganja Bag , R/o:- Nizigaon
				3167	Private	Gharbari	0.010	Rajendra Kumar Bramhavat , Dipak Kumar , S/o :- - Ranchod Bramavat , Bimala , W/o:- Ranachod Bramhavat , R/o:- Nizigaon
				4965	Private	Agriculture	0.010	Panchanan, Santan, Janardan , S/o :- Nakula Padhan , R/o:- Nizigaon
				2845	Private	Agriculture	0.010	Jaypal Naik s/o- Upendra Naik of Vill- Nizigaon
				3169	Government	Unata Jojana Jogya	0.100	Rakhit

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(4)LADERPALI	244	Private	Agriculture	0.020	Sukbinder Singh , S/o :- Hajura Singh , R/o :- Nizigaon
			(5)RENGALIPALI	676	Private	Patita	0.020	Kunjalata Mital , W/o :- Bijaya Kumar Mital , R/o :- Attabira
				1309	Private	Agriculture	0.050	Chamaru Singh , S/o :- Nanaka Singh , R/o :- Laderpali
				671	Private	Gharbari	0.040	Dhabira Pradhan , Mahendra Pradhan , S/o Sapan Padhan , R/o :- Nizigaon
				672	Private	Gharbari	0.020	Dhabira Pradhan , Mahendra Pradhan S/o :- -Sapan Pradhan , R/o :- Nizigaon
				670	Private	Gharbari	0.010	Dhabira Pradhan , Mahendra Pradhan R/o :- Nizigaon
				682	Private	Agriculture	0.020	Premraj Singh S.o Bhagbana Singh , R/o :- laderpali
				679	Private	Agriculture	0.020	Banshidhar naik , S/o :- - Kesaba naik , R/o :- Nizigaon
				1280	Private	Agriculture	0.010	Banita Gartia , W/o :- Sachida Nanda Gartia , R/o :- Laderpali
				680	Private	Agriculture	0.050	Satyanaryan Agrawal , S/o :- Gopiram Agrawal , R/o :- Attabira
				795	Private	Agriculture	0.030	Attabira Co- Operative Society
				646	Private	Gharbari	0.100	Attabira Sugar Processing and marketing , MAF - Secretary



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				675	Private	Patita	0.010	Ganda Pradhan S/o- Mitrabhanu, Panika S/o- Arjun, Rajkumar s/o Nakula, Udia W/o- Nakula, Sanu, Bhas ker S/o- Nila, Nrupa S/o- Sunder, Thabira, ma hendra, S/o-Sapan, Ramesh S/o Harachand, Bhujia, Kapila S/o Abhi, Rajan S/o Laxman, Narasingha, Basdev S/o Jogi, Bije S/o Nilendri, Kartic S/o Pitamber, Bajara S/o Suru Vill- Nizigaon
		(6)JANHAPADA		1772	Private	Barchha	0.150	Betikhai Pradhan , S/o :- Jagabandha, Thabiri Sahoo , S/o :- Lambodhara Shao , R/o:- Nizigaon
				1811/6333	Private	Agriculture	0.060	Rabindra Sahoo , S/o :- Kalapa Sahoo , R/o:- Debahal
				1776	Private	Agriculture	0.020	Hadu Barge , S/o :- Bhadra Barge , R/o:- Deobhal
				1810	Private	Ghara	0.010	Phula Barik , W/o:- Bhaja barik , R/o:- Nizigaon
				1876	Private	Agriculture	0.300	Sashibhusan Bati, Netai , S/o :- Gobinda Bati , Santilata , W/o:- Gourabadi , R/o:- Nizigaon
	2.BARGARH	(1)PRADHANPA LI		1,355	Private	Agriculture	0.050	Badan Ray , S/o:- - Rambilash Ray ., R/o :- Bargarh(W.No.-03)
				1359	Private	Agriculture	0.020	Rajpadi Ray , S/o:- Jadu Ray , R/o :- Bargarh, WD No- 03
		(2)BRAHMACHA RI		92	Private	Agriculture	0.360	Dolamani Dora S/o:- Bidyadhar Dora , , R/o :- Nizigaon

4739 GI/12-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				684	Private	Agriculture	0.060	Dolamani Dora S/o:- Bidyadhar Dora , R/o :- Nizigaon
				380	Private	Agriculture	0.040	Susil Kumar Dash S/o:- - Banbihari Dash , R/o :- Nizigaon
			(3)BARGARH	579	Private	Agriculture	0.060	Kesaba Chandra Das ,S/o:- - Lakhpatri Dash , R/o :-Nizigaon
				86	Private	Agriculture	0.020	Gangadhar Sahu S/o:- Judistir Sahu R/o :- Nizigaon
				87	Private	Agriculture	0.090	Gopal Sahu ,S/o:- Ganda Sahu , R/o :-Nizigaon
				107	Private	Agriculture	0.030	Chaturbhuja Pradhan, Minketan Tankladhar Pradhan ,S/o:- Parsu Pradhan Sukru Padhan S/o:- Bhalu Pradhan, R/o :- Nizigaon
				540	Private	Agriculture	0.050	Chetan Bagarti S/o:- Naryan Bagarty , R/o :- Nizigaon
				474	Private	Agriculture	0.030	Judhistir Mangual S/o:- Bayudev Mangual , R/o :- Nizigaon
				545	Private	Agriculture	0.050	Bhagrathi Sahu S/o:- Balmakun sahu Sahdev Sahu, R/o :- Nizigaon
				1492	Private	Agriculture	0.030	Kirani Bagarti ,S/o:- - sukhas Bagati R/o :-Brahamchani
				472	Private	Agriculture	0.080	Mohan Pradhan Chotelal, Jogendra S/o Tankadhar, Benadhar, Gouranga, Bhudadev,S/o:- Nabin Pradhan R/o :-Nizigaon
				542	Private	Agriculture	0.050	Harabati Gartia W/o:- - Narahari Gartia ,R/o :- Nizigaon

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(4)HALDIPALI	281	Private	Agriculture	0.050	Rathindra Kumar Agrawal ,S/o:- Ghanshyam Agrawal ,R/o Bargarh
			(5)SOUNTAPUR	344	Private	Agriculture	0.020	Kumuda Chandra Dash ,S/o:- Debarchan Dash ,R/o :-Nizigaon
				344/477	Private	Agriculture	0.020	Banamali Budek ,S/o:- Bansidhar Budek ,R/o :- Nizigaon
			(6)GOBINDPUR	2406	Private	Agriculture	0.130	Jankai Bai ,W/o:- Mangal Chand Agrawal ,R/o :- Bargarh
				2407	Private	Agriculture	0.140	NuruSahoo ,W/o:- Ukula Sahoo , Sadu Sahu , Bairagi Sahu ,S/o:- , Nanda , bansi ,S/o:- Bishi , Rajendra ,S/o:- Dhanu Jhasketan ,S/o:- Achuta, Eka, Gokula, Gangdhar ,S/o:- Hajar , Durjodhan ,S/o:- Sadanda , Prasan ,S/o:- Bhaban ,R/o :- Patharala
				2420	Private	Agriculture	0.170	NuruSahoo ,W/o:- Ukula Sahoo , Sadu Sahu , Bairagi Sahu ,S/o:- , Nanda , bansi ,S/o:- Bishi , Rajendra ,S/o:- Dhanu Jhasketan ,S/o:- Achuta, Eka, Gokula, Gangdhar ,S/o:- Hajar , Durjodhan ,S/o:- Sadanda , Prasan ,S/o:- Bhaban ,R/o :- Patharala

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2421	Private	Agriculture	0.160	NuruSahoo ,W/o:- Ukula Sahoo , Sadu Sahu , Bairagi Sahu ,S/o:- Nanda , bansi S/o:- Bishi , Rajendra ,S/o:- Dhanu Jhasketan S/o:- Achuta, Eka S/o:- Hajar , Durjodhan ,S/o:- Sadanda , Prasan S/o:- Bhaban ,R/o :- Patharala
				2425	Private	Agriculture	0.020	NuruSahoo ,W/o:- Ukula Sahoo , Sadu Sahu , Bairagi Sahu ,S/o:- Nanda , bansi S/o:- Bishi , Rajendra ,S/o:- Dhanu Jhasketan S/o:- Achuta, Eka S/o:- Hajar , Durjodhan ,S/o:- Sadanda , Prasan S/o:- Bhaban ,R/o :- Patharala
				2426	Private	Agriculture	0.010	NuruSahoo ,W/o:- Ukula Sahoo , Sadu Sahu , Bairagi Sahu ,S/o:- Nanda , bansi S/o:- Bishi , Rajendra ,S/o:- Dhanu Jhasketan S/o:- Achuta, Eka S/o:- Hajar , Durjodhan ,S/o:- Sadanda , Prasan S/o:- Bhaban ,R/o :- Patharala
				2427	Private	Agriculture	0.040	NuruSahoo ,W/o:- Ukula Sahoo , Sadu Sahu , Bairagi Sahu ,S/o:- Nanda , bansi S/o:- Bishi , Rajendra ,S/o:- Dhanu Jhasketan S/o:- Achuta, Eka S/o:- Hajar , Durjodhan ,S/o:- Sadanda , Prasan S/o:- Bhaban ,R/o :- Patharala

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2781	Private	Agriculture	0.200	Mahdev Pradhan ,S/o:- Mohan Padhan, Vill- Nizigaon
				2428	Private	Agriculture	0.020	Samati Bhue & Other ,R/o :- Nizigaon
				2429	Private	Agriculture	0.030	Samati Bhue & Other ,R/o :- Nizigaon
				2780	Private	Agriculture	0.050	Kirandevi Sharma ,W/o:- Jagdish Sharma ,R/o :- Nizigaon
			(7)CHAKARKEN D	2850./5440	Private	Patit	0.210	Kripal Singh ,S/o:- Haribansh Singh , ,R/o :-Ambapali
				2851./5441	Private	Patit	0.050	Kripal Singh ,S/o:- Haribansh Singh , ,R/o :-Ambapali
	3.SOHELA	(1)BISHIPALI		1276	Private	Agriculture	0.160	Sanjaya Prakash Agrawal , S/o:- Jayaprakash Agrawa; , R/o:- Bargarh Wno-16
		(2)NUAGAON		1381/1737	Private	Agriculture	0.100	Kesab khamari , Pravabati Bhagarti , S/o:- - Krupa, Chatura W/o Krupa,Chhelja , S/o:- Naryana , Sahadev Purna , S/o:- Pitamabar Hadu, Subal , , S/o:- Chitra Sibani W/o Chandra Sumita , S/o:- Ude Ghasi , Kaibalya , S/o:- Nila , R/o:- Nizigoan
				1381	Private	Agriculture	0.500	Kesab khamari , Pravabati Bhagarti , S/o:- - Krupa, Chatura W/o Krupa,Chhelja , S/o:- Naryana , Sahadev Purna , S/o:- Pitamabar Hadu, Subal , , S/o:- Chitra Sibani W/o Chandra Sumita , S/o:- Ude Ghasi , Kaibalya , S/o:- Nila , R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				218/1829	Private	Agriculture	0.030	Krushna Chandra Das , S/o:- Hurusikesh Das , R/o:- Guedesira
				1382	Government	Road	0.100	Sarbasadharan
		(3)GARVANA		852/2627	Private	Gharbari	0.010	Atreya Panda , S/o:- Debraj panda , R/o:- Nizigoan
				850/2629	Private	Gharbari	0.010	Radhyeshyam panda , S/o:- Ranjit panda , R/o:- Nizigoan
				850/2630	Private	Gharbari	0.040	Kunja Bihari Sahoo , S/o:- Ratna Sahoo , R/o:- Nizigoan
				850/2631	Private	Gharbari	0.030	Dharmapad Sahoo , S/o:- Kunja Bihari Sahoo , R/o:- Nizigoan
				850/2633	Private	Gharbari	0.010	Ganesh Pradhan , S/o:- Gobardhan Pradhan , R/o:- Nizigoan
				850/2634	Private	Gharbari	0.010	Bharat Pradhan , S/o:- Gobardhan Padhan , R/o:- Nizigoan
				850/2635	Private	Gharbari	0.010	Hemachandra Padaha , S/o:- Gobarshan Pradhan , R/o:- Nizigoan
				850/2636	Private	Gharbari	0.010	Janhabi Pradhan , S/o:- Gobarshaan Pradhan , R/o:- Nizigoan
				850/2637	Private	Gharbari	0.010	Janmajaya Sahu , S/o:- Hara Sahu , R/o:- Nizigoan
				850/2638	Private	Gharbari	0.010	Somant Sahu , S/o:- Hara Sahu , R/o:- Nizigoan
				852/2610	Private	Gharbari	0.015	Gobardhan Barik , S/o:- Nurpa Barik , R/o:- Nizigoan
				852/2611	Private	Gharbari	0.020	Lal Bihari Mohapatra S/o Lokhnath Mahapatra , R/o:- Nizigoan
				852/2612	Private	Gharbari	0.010	Manbodh Sahu , S/o:- Hadu Sahu , R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				852/2613	Private	Gharbari	0.010	Dirju Barik , S/o:- Tanka Barik , R/o:- Nizigoan
				852/2614	Private	Gharbari	0.010	Tikeswer Sahu , S/o:- Damru Sahu R/o:- Nizigoan
				852/2615	Private	Gharbari	0.020	Kanhu Charan Bhoi , S/o:- Sureswri Bhoi, R/o:- Nizigoan
				852/2616	Private	Gharbari	0.010	Benudhar Bhoi , S/o:- Sureswri Bhoi , R/o:- Nizigoan
				852/2617	Private	Gharbari	0.010	Gopinath Bhoi , S/o:- Sureswar Bhoi , R/o:- Nizigoan
				852/2618	Private	Gharbari	0.005	Danara Barik , S/o:- Kangalu , R/o:- Nizigoan
				852/2619	Private	Gharbari	0.010	Niranjan Barik S/o Kangalu Barik , R/o:- Nizigoan
				852/2620	Private	Gharbari	0.020	Murali Dahr Barik , S/o:- Kanagalu , R/o:- Nizigoan
				852/2621	Private	Gharbari	0.030	Mayadhar Pasvat , S/o:- Radhakant Pasvat , R/o:- Nizigoan
				852/2651	Private	Gharbari	0.040	Jachakeswar Sahu S/o:- Shankar Sahu , R/o:- Nizigoan
				852/2624	Private	Gharbari	0.030	Bhikari Charan Sahu , S/o:- Shanakar Sahu , R/o:- Nizigoan
				852/2625	Private	Gharbari	0.010	Haradhan Nayak , S/o:- Kanhei Nayak , R/o:- Nizigoan
				852/2626	Private	Gharbari	0.020	Topadhan Mahapatra , S/o:- Sahadev mahapatra , R/o:- Nizigoan
				852/2609	Private	Gharbari	0.030	Abhimanyu Khamari , S/o:- Khadia Khamari , R/o:- Nizigoan
				847/2640	Private	Gharbari	0.010	Satyaban Sahoo , S/o:- Dandra Sahoo , R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				847/2641	Private	Gharbari	0.010	Nimai Sahu , S/o:- Bansidhar Sahu , R/o:- Nizigoan
				847/2642	Private	Gharbari	0.030	Sunamukha Sahu S/o:- Dirju Sahu R/o:- Nizigoan
				847/2643	Private	Gharbari	0.010	Promad Sahu , S/o:- Arkhita Sahu R/o:- Nizigoan
				847/2644	Private	Gharbari	0.040	Kishor padhan , S/o:- Prosotam paradhan , R/o:- Nizigoan
				847/2645	Private	Gharbari	0.020	Lalit Kumar Sahu , S/o:- Birabar Sahu R/o:- Nizigoan
				847/2646	Private	Gharbari	0.010	Bharat Sahu , S/o:- Lal Saheb Sahu , R/o:- Nizigoan
				847/2647	Private	Gharbari	0.020	Binod Sahu , S/o:- Ramji Sahu , R/o:- Nizigoan
				847/2648	Private	Gharbari	0.020	Saroj Sahu , S/o:- Ramji Sahu , R/o:- Nizigoan
				847/2650	Private	Gharbari	0.010	Subassh panda , S/o:- Tankadhar pana , R/o:- Nizigoan
				847/2623	Private	Gharbari	0.030	Kishor , Suresh , S/o:- Prusotam Padhan , R/o:- Nizigoan
				314/2248	Private	Gharbari	0.080	Labangalata Bania W/o Ekadasi Bania , R/o:- Nizigoan
				314/2403	Private	Gharbari	0.100	Nabin kishore Acharya , S/o:- Bansidhar Acharya R/o:- Nizigoan
				852/2628	Private	Gharbari	0.020	Mukteswar Acharya S/o Ram Prasad Acharya, Vill-Nizigaon
				850/2632	Private	Gharbari	0.010	Nandi Mishra , S/o:- Bhikari Charan Mishra , R/o:- Nizigoan
				847/2649	Private	Gharbari	0.020	Rabi Panda S/o Tankdhar Panda, Vill-Nizigaon
				847/2622	Private	Gharbari	0.030	Arakhit Naik , S/o:- Sesha Naik , R/o:- Nizigoan



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(4)HALDIPALI	149/763	Private	Agriculture	0.010	Laxmibati Bhoi W/o Nityanada Bhoi, R/o:- Sohella
				163/876	Private	Agriculture	0.040	Bharast kumar Bhanja, S/o:- Tankadhara Bahanja, R/o:- Sohella
				244/945	Private	Agriculture	0.120	Kasinatha Panda, S/o:- Prasanjit Panda, R/o:- Garvana
			(5)SOHELLA	1829	Private	Agriculture	0.130	Rambhagat Agraswal, S/o:- Harinarian Agrawal, R/o:- Nizigoan
				1830	Private	Agriculture	0.100	Rambhagat Agraswal, S/o:- Harinarian Agrawal, R/o:- Nizigoan
				1099	Private	Agriculture	0.570	Anirudha Gartia, Amula, S/o:- Krushana Chandra Gartia, R/o:- Nizigoan
				1828	Private	Agriculture	0.020	Tola Thela, S/o:- Ghutu, Duari, S/o:- Hari, R/o:- Nizigoan
				1869	Private	Agriculture	0.070	Raghunandana Tiware, S/o:- Prasanna Tiware, R/o:- Nizigoan
				1867/2359	Private	Agriculture	0.300	Laxminarian Bhoi S/o:- Gourishankar bhoi R/o:- Garvana
				1688/3801	Private	Gharbari	0.020	Monoj Kumar Agrawal, S/o:- NanakramAgrwal, R/o:- Nizigoan
				1688/3828	Private	Gharbari	0.007	Nasir Hussen, S/o:- Abdul Kaddar, R/o:- Nizigoan
				1688/3832	Private	Gharbari	0.007	Abu Bakar, S/o:- Abdul Ajik, R/o:- Nizigoan
				1688/3827	Private	Gharbari	0.007	Mohammad Sabir S/o:- Abdul Ajik, R/o:- Nizigoan
				1688/3831	Private	Gharbari	0.010	Haua Bai W/o Abdul Gafar, Mohammad Faruk, S/o:- Abdul Gafar, R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1688/3829	Private	Gharbari	0.007	Gulam Jilani , S/o: Haran , R/o:- Nizigoan
				1688/3830	Private	Gharbari	0.010	Kartik Sahoo , S/o: Sashi Sahoo , R/o: Nizigoan
				1688	Private	Gharbari	0.007	Mohamad Sajit , S/o:- Abdul Rahim , R/o:- Nizigoan
				427	Private	Agriculture	0.120	Prafula Kumar Mishra S/o Harihar Mishra, Vill- Nizigoan
				1867/2225	Private	Gharbari	0.040	Bhabani Shankar Sahani , S/o:- = Gouri Shankar Sahni, R/o:- Nizigoan
				587	Private	Agriculture	0.060	Durjodhan Gartia , S/o:- , madhaura , Gobardhana , S/o:- bati, Sabitri , S/o:- Dayanidhi , Ranga, Preama , Shankara , S/o:- Dhoba Rukmani W/o Dhoba , Prahald Basudev, Asutosh , S/o:- Santana Bhagi W/o Santan Rangtu, Kulamani S/o Narhari, Nurpa S/o:- Tikeswer , Jala W/o Tikeswar Gartia , R/o:- Nizigoan
				52	Private	Agriculture	0.250	Dingar sha S/o- Ugersan Sha R/o- Dumberpali
				1880	Government	Road	0.020	P.W.D
				1808	Government	Nayanjori	0.070	P.W.D
				1809	Government	Nayanjori	0.060	P.W.D
		(6)KENDUMUND I- DUMBERPALI		232	Private	Agriculture	0.250	Lata Padhan W/o Santosh Pradhan , R/o:- Nizigoan
				352	Private	Agriculture	0.250	Lata Padhan W/o Santosh Pradhan , R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				378	Private	Agriculture	0.240	Bilash pradhan W/o Pichhalu Pradhan , Narrotam S/o:- Pichhalu Padhan , R/o:- Nizigoan
				473	Private	Agriculture	0.030	Arta Padhan , Akhaya , S/o:- Parnesara , Chanchala W/o Jibardhan Pradhan R/o:- Nizigoan
				476	Private	Agriculture	0.050	Rahasa Bihari Mahanada , Kunja S/o:- Gajenda Mahanda , R/o:- Nizigoan
				487	Private	Adi	0.040	Subash Padhan , S/o:- Shyama, Sunder, JanakiW/o Shyma , Dukha , S/o:- Durjodhan, Nura W/o Bhaskar Padhan , Surubali, Saibane, Sarojne D/o Bhaskar R/o:- Nizigoan
				482	Private	Munda	0.040	Subash Padhan , S/o:- Shyama, Sunder, JanakiW/o Shyma , Dukha , S/o:- Durjodhan, Nura W/o Bhaskar Padhan , Surubali, Saibane, Sarojne D/o Bhaskar R/o:- Nizigoan
				349	Private	Agriculture	0.320	Bati Padhan W/o Sananda Padhan , R/o:- Nizigoan
				328/925	Private	Gharbari	0.010	Sumedha Dip W/o Chera Dip , R/o:- Nizigoan
				342/926	Private	Gharbari	0.010	Sumedha Dip W/o Chera Dip , R/o:- Nizigoan
				326/927	Private	Gharbari	0.010	Mitra Suna W/o Surendra Suna , R/o:- Nizigoan
				342/928	Private	Gharbari	0.010	Mitra Suna W/o Surendra Suna , R/o:- Nizigoan
				342	Private	Gharbari	0.020	mahipal Dip , S/o:- Bhagbatia Dip , R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				726	Private	Agriculture	0.180	Ramkrushan Suna , Ramparsad , Rajenda , S/o:- Chatrubhaja Suna , R/o:- Nizigoan
				480	Government	Village Forest	0.320	Rakhit
				470/781	Government	Village Forest	0.050	Rakhit
			(7)ARJUNDA	1723	Government	Village Forest	0.050	Rakhit
				1797	Private	Agriculture	1.530	Kulamani Padhan , S/o:- Dhabaleswar , Gokula , Sachidanada , S/o:- Nilamani , Parbati , W/o:- Nilamani , R/o:- Nijgaoun
			(8)PASTAMUND A	302/1387	Private	Gharbari	0.020	Prakash Kour W/o Guljar Singh , S/o:- karnel Singh , R/o:- Pandkipali
				303	Government	Road	0.100	P.W.D.
				304	Government	BastiJogya	0.100	Rakhit
			(9)PANDAKIPALI	1688/3785	Private	Gharbari	0.020	Ramanda Mishra , S/o:- Bidyadhar Mishra , R/o:- Nizigoan
				1690/3786	Private	Gharbari	0.010	Ramanda Mishra , S/o:- Bidyadhar Mishra , R/o:- Nizigoan
				1614/3787	Private	Gharbari	0.020	Bidyadhar Satpathy , S/o:- Gande Satpathy , R/o:- Nizigoan
				1616/3788	Private	Gharbari	0.020	Bidyadhar Satpathy , S/o:- Gande Satpathy , R/o:- Nizigoan
				1690	Private	Gharbari	0.030	Bidyadhar Satpathy , S/o:- Gande Satpathy , R/o:- Nizigoan
				1688/3789	Private	Gharbari	0.010	Raj Kumar Bhoi , S/o:- Tikesindhu Bhoi , R/o:- Nizigoan
				1612/3790	Private	Gharbari	0.030	Raghunath Baisal , S/o:- Nilamabar , R/o:- Nizigoan
				1613/3791	Private	Gharbari	0.010	Raghunath Baisal , S/o:- Nilamabar , R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1614/3792	Private	Gharbari	0.040	Ganesh Prasad Seth , S/o:- Fulchand Seth , R/o:- Nizigoan
				1689/3793	Private	Gharbari	0.030	Ghanshyam Sahu , S/o:- Dhabaleswar Sahu , R/o:- Nizigoan
				1613/3794	Private	Gharbari	0.020	Krushan Chandra Bhoi , S/o:- Sukilal Bhoi , R/o:- Nizigoan
				1689	Private	Gharbari	0.020	Rankamani Sahu , S/o:- Dhabaleswar Sahu , R/o:- Nizigoan
				1690/2844	Private	Gharbari	0.010	Rankamani Sahu , S/o:- Dhabaleswar Sahu , R/o:- Nizigoan
				1616/3795	Private	Gharbari	0.030	Biswajit Satpathy , S/o:- Bidyadhar Satpathy , R/o:- Nizigoan
				1688/3796	Private	Gharbari	0.030	Pratibha Mishra , S/o:- Satynaryan Mishra , R/o:- Nizigoan
				1616/3797	Private	Gharbari	0.030	Debanada Satpathy , S/o:- Bidyadhar Satpathy , R/o:- Nizigoan
				1614/3798	Private	Gharbari	0.030	Pradeep Ku Seth , S/o:- Ganesh Seth , R/o:- Nizigoan
				1688/3799	Private	Gharbari	0.030	Kambupani Bhoi , S/o:- Tejasindhu Bhoi , R/o:- Nizigoan
				1688/3800	Private	Gharbari	0.030	Chudamani Bhoi , S/o:- Tejasindhu Bhoi , R/o:- Nizigoan
				1614/3801	Private	Gharbari	0.030	Sita Seth W/o Fulchand Seth , R/o:- Nizigoan
				1612/3802	Private	Gharbari	0.030	Malati Bisal W/o Nilamer Bisal , R/o:- Nizigoan
				415/2245	Private	Agriculture	0.030	Gopinath Bhoi , S/o:- Sudersan Bhoi , R/o:- Nizigoan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1414	Private	Agriculture	0.110	Mahadev Biswal Tankadhara, Bansidhara, S/o:- Shyam Sundara, Trilochan, Iswar, S/o:- Dasratha Biswal, R/o:- Nizigoan
				1619	Private	Gharbari	0.040	Dayanidhi Sahoo, Santilta Sahoo, Saraswati S/o & D/o- Suresari, Supari, W/o Sureswri, Antaryami S/o & D/o Hrushikesh, Chintamani, S/o:- Rama Sahu, R/o:- Nizigoan
				1728/2172	Government	Kata	0.540	Rakhit
				2649	Government	Road	0.090	Sarbasadharana

[F.No. NHA/BOT/11012/73/2005/Pv/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.